



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260090
CG-DL-E-09012025-260090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]
No. 26]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2025/पौष 19, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2025/PAUSHA 19, 1946

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-303/2025.—माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21(6)(ग) के अधीन संदर्भ मामला संख्या 4/2012 में 27 नवंबर, 2024 को यह आदेश दिया है कि श्री गुरविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सदस्यता सं. 016024), आवासीय/व्यावसायिक पता : मेसर्स ग्रोवर एंड ग्रोवर 5147 सेक्टर - बी-7, वसंत कुंज, नई दिल्ली (दिल्ली) भारत - 110070 का नाम, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 2 के अधीन "अन्य कदाचार" का दोषी पाए जाने के कारण छह महीने की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह भी आदेश दिया गया कि उनकी सदस्यता इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आरंभ करते हुए छह (06) महीने के लिए निलंबित रहेगी। 6 महीने की उक्त अवधि के दौरान वह चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

अतः, अब, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 27.11.2024 के उक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के निबंधनों के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री गुरविंदर सिंह (सदस्यता सं. 016024) का नाम माननीय उच्च न्यायालय के तारीख 27.11.2024 के आदेश में दिए गए निदेश के अनुपालन में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट गया है।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./890/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-303/2025.—A Division Bench of the Hon'ble High Court of Delhi in Reference Case No. 4/2012 under Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 has ordered on 27th November, 2024 that the name of Shri Gurvinder Singh, Chartered Accountant (M. No. 016024), Residential/Professional Address: M/s. Grover & Grover, 5147, Sector – B – 7, Vasant Kunj, New Delhi (Delhi) India – 110070 be removed from the Register of Members for a period of six months after finding him guilty of "Other Misconduct" under Section 2 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949.

It was further ordered that his membership shall stand suspended for Six (06) months starting from the date of publication of the notification in the Gazette of India. During the said period of 6 months, he shall not practice as a Chartered Accountant.

Now, therefore, pursuant to the said order of the Hon'ble Delhi High Court dt. 27.11.2024 and in terms of sub-section (2) of Section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of Shri Gurvinder Singh (M. No. 016024) stands removed from the Register of Members for period of six months w.e.f. the date of publication of this Notification in compliance with the direction of Hon'ble High Court order dated 27.11.2024.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./890/2024-25]